



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2005/कार्तिक 25, 1927

No. 300]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2005/KARTIKA 25, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2005

सं. 67/(आर ई-2005)/2004—2009

फा. सं. 01/94/162/610/एएम 06/पीसी-4; 01/94/180/परिशिष्ट 4ग/एएम 06/पीसी-4; 01/94/180/परिशिष्ट 35ख/एएम 05/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

2. “उद्गम-गैर तरजीही प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सियों की सूची” से सम्बंधित परिशिष्ट 4ग में निम्नलिखित एजेंसियाँ जोड़ी गई हैं—

महाराष्ट्र

23. दि क्लोथिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया

902, महालक्ष्मी चैम्बर्स

22, भूलाभाई देसाई रोड

मुम्बई-400026

फोन: 2353 8245, 2352 5168, 2353 8986

फैक्स: 91-22-2351 5908

ई-मेल: cmai@hathway.com

वेबसाइट: www.cmai.info

24. मैसर्स नागर रोड इण्डस्ट्रीज चैम्बर आफ कामर्स एण्ड एग्रीकल्चर

305, गुलमोहर सेन्टर प्वाइंट

क्रम सं. 34/ए-5, वडगाँव शेरी, नागर रोड
पुणे-411014
टेलेक्स/फैक्स: 91-20-56029325, 56246798
ई-मेल: nria@vsnl.net

3. इसके अतिरिक्त “उद्गम-गैर तरजीही प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची” से सम्बंधित परिशिष्ट 4ग में निम्नलिखित एजेंसियाँ जोड़ी गई है:-

सिर्फ चाय के निर्यात के लिए:

आंध्र प्रदेश

1. मैसर्स विमता लैब्स लिमिटेड
142, आई डी ए, फेज-II
चेरलापल्ली
हैदराबाद-500051.
फोन: 91-40-2726 4141,4444
फैक्स: 91-40-2726 3657
ई-मेल: vimtahq@vimta.com
यूआरएल: www.vimta.com

तमिलनाडु

2. मैसर्स उपासी टी रिसर्च फाउण्डेशन
निशार डैम पोस्ट आफिस
वेलपाराई-642127
कोयम्बटूर जनपद
तमिलनाडु
फोन: 04253-235301, 235303
फैक्स: +91-04253-235302
ई-मेल: upasitri@satyammail.com
ग्राम्स: यूपीएसआई, वेलपाराई

महाराष्ट्र

3. मैसर्स जीओ-केम लैबोरेटरीज (प्रा0) लिमिटेड
294, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट
मुम्बई-400001
फोन: (+91-22) 5638 3838
फैक्स: (+91-22) 5638 3800
ई-मेल: mumbai@geochemgroup.com
टेलेक्स: 011-83498 जीईओसी आईएन
केबल: “जीईओसीएचईएमएसयूपी”

4. मैसर्स स्टीवार्ट सर्वेयर्स एण्ड एसेयर्स प्रा० लि०
3, विक्टोरिया बिल्डिंग, 27, एस.ए. ब्रेलवी रोड
फोर्ट, मुम्बई-400001.
फोन: 91-22-2266 0130, 2266 0069, 2265 1887
फैक्स: 91-22-2266 0427
ई-मेल: stewart@vsnl.com
वेबसाइट: www.stewartindia.com

पश्चिम बंगाल

5. मैसर्स बीएसआई इन्स्पेक्टोरेट इण्डिया प्रा० लि०
608, सैन्ट्रल प्लाजा
2/6, शरत् बोस रोड
कोलकाता-700020
फोन: +91 33 2485 2902/8823/8824/8825
फैक्स: +91 33 2485 8826/8827
ई-मेल: Calhq@bsi-inspectorate.co.in
वेबसाइट: www.bsi-global.com/inspectorate
6. मैसर्स कार्गो इन्स्पेक्टर्स एण्ड सुपरिटेण्डेन्स कं० प्रा० लि०
पी-165, सी.आई.टी. रोड
कोलकाता-700010
फोन: (033) 2350-7001/2351-0050/2353-8403
फैक्स: (033) 2373-3231, 2351-0215
ई-मेल: cisco@cal3.vsnl.net.in/cisco@vsnl.com
7. मैसर्स टी रिसर्च एसोसिएशन
113, पार्क स्ट्रीट, 9वाँ फ्लोर
कोलकाता-700016
फोन: 2229-1815, 2229-3813
फैक्स: 91-33-2229 4271
ई-मेल: tearesearch@sify.com

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th November, 2005

No. 67/(RE-2005)/2004—2009

R. Nos. 01/94/162/610/AM06/PC-IV; 01/94/180/App. 4C/AM 06/PC-IV; 01/94/180/App. 35B/AM 05/PC-IV.— In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. I) :—

2. The following agencies are added in Appendix 4 –C pertaining to “List of Agencies Authorized to Issue Certificate of Origin-Non Preferential” :

MAHARASHTRA

23. The Clothing Manufacturers Association of India

902, Mahalaxmi Chambers

22, Bhulabhai Desai Road

Mumbai-400026.

Tel.No.2353 8245, 2352 5168, 2353 8986

Fax: 91-22-2351 5908

E-Mail: cmai@hathway.com

Website: www.cmai.info

- 24.M/s. Nagar Road Industries Chamber of Commerce & Agriculture

305, Gulmohar Centre Point

S. No.34/A-5, Vadgaon Sheri, Nagar Road

Pune-411014

Tel/Fax: 91-20-56029325, 56246798

E-Mail: nria@vsnl.net

3. Further the following agencies are added in Appendix 4 –C pertaining to “List of Agencies Authorized to Issue Certificate of Origin-Non Preferential”

FOR EXPORT OF TEA ONLY:ANDHRA PRADESH

1. M/s. Vimta Labs Ltd.
142, IDA, Phase-II
Cherlapally
Hyderabad-500051.
Tel. No. 91-40-2726 4141, 4444
Fax: 91-40-2726 3657
E-Mail: vimtahq@vimta.com
URL: www.vimta.com

TAMILNADU

2. M/s. Upasi Tea Research Foundation
Nirar Dam PO
Valparai-642127
Coimbatore Distt.
Tamilnadu.
Tel. No.: 04253-235301, 235303
Fax: +91-04253-235302
E-mail: upasitri@satyammail.com
Grams: UPASI, Valparai

MAHARASHTRA

3. M/s. Geo-Chem Laboratories (P) Ltd.
294, Shahid Bhagat Singh Road
Fort
Mumbai-400001.
Tel.No. (+91-22) 5638 3838
Fax: (+91-22) 5638 3800
E-Mail: mumbai@geochemgroup.com
Telex: 011-83498 GEOC IN
Cable: "GEOCHEMSUP"

3293 61/05-2

4. M/s. Stewart Surveyors & Assayers Pvt. Ltd.
3, Victoria Building, 27, S.A. Brelvi Road
Fort, Mumbai-400001.
Tel. Nos: 91-22-2266 0130, 2266 0069, 2265 1887
Fax: 91-22-2266 0427
E-Mail: stewart@vsnl.com
Website: www.stewartindia.com

WEST BENGAL

5. M/s. BSI Inspectorate India Pvt. Ltd.
608, Central Plaza
2/6, Sarat Bose Road
Kolkata-700020.
Tel No. +91 33 2485 2902/8823/8824/8825
Fax +91 33 2485 8826/8827
E-mail: Calhq@bsi-inspectorate.co.in
Website: www.bsi-global.com/inspectorate
6. M/s. Cargo Inspectors & Superintendence Co. Pvt. Ltd.
P-165, C.I.T. Road
Kolkata-700010
Tel.No. (033) 2350-7001/2351-0050/2353-8403
Fax: (033) 2373-3231, 2351-0215
E-Mail: cisco@cal3.vsnl.net.in / cisco@vsnl.com
7. M/s. Tea Research Association
113, Park Street, 9th Floor
Kolkata-700016.
Tel.No.:2229-1815, 2229-3813
Fax: 91-33-2229 4271
E-mail: tearesearch@sify.com

This issues in public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade